


BCCDC ने जनता को सरी के A1 हर्बल आयुर्वेदिक क्लीनिक से खरीदे गए उत्पाद फेंक देने की सलाह दी

BCCDC advises public to discard products purchased from A1 Herbal Ayurvedic Clinic in Surrey

जनवरी 28, 2019



ब्रिटिश कोलंबिया के रोग नियंत्रण केंद्र (BC Centre for Disease Control) (BCCDC) ने ब्रिटिश कोलंबिया वासियों को सचेत किया है कि वे सरी, BC में स्थित A1 हर्बल आयुर्वेदिक क्लीनिक से खरीदे गए उत्पाद फेंक दें क्योंकि इन [आयुर्वेदिक](#) उत्पादों में सीसा (lead) तथा पारा (mercury) पाए गए हैं तथा वे [हैल्थ कैनैडा](#) द्वारा बिक्री के लिए अधिकृत नहीं हैं।

एक निरीक्षण के बाद [फ्रेज़र हैल्थ](#) ने जन स्वास्थ्य कानून के अंतर्गत #31 – 8430 128th Street, Surrey, BC के पते पर स्थित A1 हर्बल आयुर्वेदिक क्लीनिक को अपना कार्यस्थल बंद करने का आदेश दिया है। [हैल्थ कैनैडा](#) ने इस क्लीनिक से उत्पाद, सामग्री तथा उपकरण जब्त किए हैं [तथा वे लोगों चेतावनी दे रहे हैं कि इनसे गंभीर खतरा हो सकता है।](#)

इन चीजों को लेने से गंभीर बीमारी और मृत्यु तक हो सकती है। BCCDC यह जानता है कि क्लीनिक का एक ग्राहक सीसे के जहर के कारण गंभीर रूप से बीमार हो गया है।

Hindi

यदि आपने इस क्लिनिक से उत्पाद खरीदे हैं और आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंताएं हैं तो कृपया किसी डाक्टर से मिलें और उन चीजों के बारे में बताएं जो आप लेते रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया का [दवा तथा जहर जानकारी केंद्र](#) किसी आवश्यक निदान अथवा इलाज के लिए आपके डाक्टर के साथ मिल कर काम करने के लिए मौजूद है।

[सीसे के जहर](#) के लक्षणों में शामिल हैं:

- खून की कमी
- सिरदर्द/चिड़चिड़ापन/सोच में धीमापन
- कब्जी
- पेट दर्द
- गर्भपात/मृत जन्म

अधिकतर आयुर्वेदिक उत्पाद तथा अन्य पारंपरिक दवाएं तथा सामग्रियां विदेशों से आयात की जाती हैं। इनमें से कई उत्पादों का सुरक्षात्मक ढंग से उपयोग किया जा सकता है, पर कुछ उत्पादों का सही विवरण उपलब्ध नहीं होता या लेबलों पर दिया नहीं जाता, जिसके कारण यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

यदि आपको शक है कि किसी पारंपरिक दवा लेने के फलस्वरूप आपको कोई लक्षण हो रहे हैं तो कृपया डाक्टरी मदद लें और अपने डाक्टर को उन सभी स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के बारे में बताएं जो आप लेते रहे हैं। आप किसी स्वास्थ्य उत्पाद के [बुरे प्रभाव की घटना](#) की सूचना या [शिकायत](#) [हैल्थ कैंनेडा](#) को भी कर सकते हैं।

आप हैल्थ कैंनेडा की [जोखम संबंधी सलाह](#) भी पढ़ें।

यदि आपके मन में कोई प्रश्न हैं या आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया [फ्रेजर हैल्थ के सरी हैल्थ प्रोटेक्शन आफिस](#) को (604) 930-5405 लोकल 765612 पर संपर्क करें।

प्रांतीय स्वास्थ्य सेवाएं प्राधिकरण का एक अंग, **BC रोग नियंत्रण केंद्र**, निगरानी, खोज, उपचार, रोकथाम और परामर्श सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य नेतृत्व प्रदान करता है। यह केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण रोगों वाले लोगों को निदानात्मक तथा इलाज की सेवाएं, तथा सभी स्तरों के सरकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों को विश्लेषणात्मक तथा नीति संबंधी सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और लंबी अवधि के रोगों तथा रोकी जा सकने वाली चोटों के बोझ को कम करने के लिए भी BCCDC सेवाएं भी प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.bccdc.ca पर जाएं या ट्विटर [@CDCofBC](#) पर हमें फालो करें।

प्रांतीय स्वास्थ्य सेवाएं प्राधिकरण (Provincial Health Services Authority) (PHSA) पूरे BC के लिए चुनिंदा विशेषज्ञताओं के लिए तथा प्रांतीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की योजनाएं बनाता है तथा उनका प्रबंधन तथा मूल्यांकन करता है, जिसके लिए वह पांच भूगोलिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है ताकि पूरे प्रांत के स्तर पर ऐसे हल ढूंढे जाएं जिनसे ब्रिटिश कोलंबिया के वासियों के स्वास्थ्य में सुधार हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.phsa.ca पर जाएं या ट्विटर [@PHSAofBC](#) पर हमें फालो करें।

मीडिया संपर्क:

Media contact:

Heather Amos (हीथर एमोस)

BCCDC कम्युनिकेशन्स

604.707.2412

अथवा PHSA मीडिया लाइन: 778. 867.7472

heather.amos@phsa.ca